



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 51 पटना, बुधवार, 30 अग्रहायण 1944 (श०)
21 दिसम्बर 2022 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-13
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेशों के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०ए०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	14-15
पूरक	---
पूरक-क	16-17

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।







पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश
13 दिसम्बर 2022

सं० स्था० 314/18 भाग-II-226/प्र०मु०व०सं०—बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना के विज्ञापन संख्या-02/2020 के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत “वनों के क्षेत्र पदाधिकारी” के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित परीक्षाफल के आधार पर विभागीय पत्रांक-4018 दिनांक-16.09.2022 के साथ संलग्न बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-बि०पु०से०आ०-परीक्षा/01-04/2020-1308 दिनांक-14.09.2022 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम-17 के तहत परीक्ष्यमान रूप में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित PB-2, ग्रेड पे-4200/- पुनरीक्षित Level-6 (35400-112400) के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्तों के अधीन पूर्णतः औपबन्धिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	संयुक्त मेधा क्रमांक	लिखित परीक्षा अनुक्रमांक	साक्षात्कार अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम / पता	लिंग	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि	फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01	7110140077	417	श्री रजनीश कुमार, पिता—श्री भोला प्रसाद, बौद्ध विहार कॉलोनी, छेदी टोला, भुसौला दानापुर, पो०—पटना एम्स, थाना—फुलवारी शरीफ, पटना—801505	पुरुष	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	09.08.1997	
2.	02	7110020262	358	सुश्री खुशबू, पिता—श्री हरि सिंह, मकान सं०—13/83, गली सं०—3 एम०सी० कॉलोनी, हिसा, ग्राम—सिरसा पोस्ट—सिरसा, थाना—सिरसा, जिला—सिरसा, हरियाणा, पिन कोड—125055	महिला	सामान्य	19.02.1993	
3.	03	7113060258	245	सुश्री रूपा, पिता—श्री राजीव नन्दन तिवारी, ग्राम—महमदपुर, पोस्ट—सोनकी, थाना—सोनकी (ओ०पी०), जिला—दरभंगा, बिहार, पिन कोड—846009	महिला	सामान्य (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	15.12.1995	

4.	04	7110020255	184	श्री दीपक कुमार पाण्डेय, पिता—श्री अनिल कुमार पाण्डेय, ग्राम—भलुनी, पोस्ट—भलुनी धाम, थाना—दिनारा, जिला—रोहतास, बिहार, पिन कोड—802218	पुरुष	सामान्य (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	02.02.1992	
5.	05	7113030131	329	श्री राजेश कुमार, पिता—श्री प्रेमचन्द्र सिंह, ग्राम—मिश्रौलिया, पोस्ट—चोरा टभका, थाना—विभूतिपुर, जिला—समस्तीपुर, बिहार, पिन कोड—848211	पुरुष	सामान्य (पिछडा वर्ग)	09.04.1997	
6.	06	7112070279	208	श्री सत्यम कुमार, पिता—श्री प्रियरंजन सिंह, ग्राम—बसंतपुर झिटकाही, पोस्ट—ढोली, थाना—सकरा, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन कोड—843105	पुरुष	सामान्य	07.04.1994	
7.	07	7110020263	252	श्री श्याम कुमार पाण्डेय, पिता—श्री बैजनाथ पाण्डेय, ग्राम—मंगितपुर, पोस्ट—सोहगी, थाना—नासरीगंज, जिला—रोहतास, बिहार, पिन कोड—821306	पुरुष	सामान्य (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	29.08.1998	
8.	08	7112040166	334	श्री श्रीनिवासन नवीन, पिता—डॉ० सुरेश मेहता, ग्राम—जगदम्बा नगर, पोस्ट—एम०आई०टी०, थाना—अहियारपुर, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन कोड—842003	पुरुष	सामान्य	27.09.1988	
9.	09	7110020165	423	श्री शिवम सिन्हा, पिता—श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिन्हा, राम निवास, मदनलाल जैन गली, कंकड़बाग, जिला—पटना, बिहार, पिन कोड—800020	पुरुष	सामान्य (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	25.01.1994	
10.	10	7114090209	401	श्री कंपनी कुमार, पिता—श्री बालेश्वर यादव, ग्राम—पिपरिया दियारा, पोस्ट—पिपरिया, थाना—पिपरिया, जिला—लखीसराय, बिहार, पिन कोड—811302	पुरुष	सामान्य	15.09.1991	

11.	11	7110070450	411	श्री निरंजन कुमार, पिता—श्री अवधेश प्रसाद यादव, ग्राम—शिवनार, पोस्ट—शिवनार, थाना—मोकामा, जिला—पटना, बिहार, पिन कोड—803302	पुरुष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	07.02.1994	
12.	12	7114090511	427	श्री सूरज कुमार, पिता—श्री संजीव कुमार, ग्राम + पोस्ट—अमारी, थाना—धरहरा, जिला—मुंगेर, बिहार, पिन कोड—811212	पुरुष	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	16.02.1995	
13.	13	7114040522	308	श्री आशीष कुमार, पिता—श्री अजय कुमार सिंह, ग्राम + पोस्ट + थाना— गिद्धौर, जिला—जमुई, बिहार, पिन कोड—811305	पुरुष	सामान्य	06.01.1994	
14.	14	7112090082	140	श्री विकाश कुमार पाण्डेय, पिता—श्री नागेन्द्र पाण्डेय, ग्राम—रामपुर कलां, पोस्ट—रामपुर कलां, थाना—खैरा, जिला—सारण, बिहार, पिन कोड—841414	पुरुष	सामान्य	18.03.1994	
15.	15	7113060101	429	श्री अंशुमन कुमार, पिता—स्व० रामचन्द्र प्रसाद यादव, द्वारा—रूपेश कुमार यादव, ग्राम—नन्द ग्राम, पोस्ट+थाना—धमदाहा, जिला—पूर्णियाँ, बिहार, पिन कोड—854205	पुरुष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	16.09.1993	
16.	16	7110080640	135	श्री अमन कुमार, पिता—श्री राम किशोर पंडित, ग्राम—राढील, पोस्ट—नईमा, थाना—तेलहारा, जिला—नालंदा, बिहार, पिन कोड—801306	पुरुष	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	02.01.1994	
17.	17	7110070816	262	श्री कुमार गौतम, पिता—श्री श्रीकांत सिंह, ई०—02, लेन, मकान सं०—13 ए० मो०—साधनापुरी, पोस्ट—जी०पी०ओ०, थाना—गर्दनीबाग, जिला—पटना, बिहार, पिन कोड—800001	पुरुष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	02.01.1990	

18.	18	7112070479	171	श्री हिमांशु शेखर, पिता—श्री सुधीर कुमार यादव, ग्राम—राहर दियारा, पोस्ट—सोनपुर, थाना—सोनपुर, जिला—सारण, बिहार, पिन कोड—841101	पुरुष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	06.03.1988	
19.	19	7113030164	390	सौरव सांडिल्य, पिता—श्री नरेन्द्र कुमार झा, हॉस्पिटल चॉक, बहादुरगंज, पोस्ट + थाना— बहादुरगंज, जिला—किशनगंज, बिहार, पिन कोड—855101	पुरुष	सामान्य	07.12.1994	
20.	20	7112090329	349	नसीम अहमद अंसारी , पिता— राशिद अनवर अंसारी, ग्राम—सिसवनिया टोला, पोस्ट—सुगौली, थाना—सुगौली, जिला—पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, बिहार, पिन कोड—845456	पुरुष	सामान्य (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	16.01.1996	
21.	21	7110030458	178	श्री नीतिकेश कुमार, पिता—श्री बलराम प्रसाद, वार्ड सं०—09, मकान न०—85, गॉव—पठान टोली, मीराचक, पोस्ट + थाना— मनेर, जिला—पटना, बिहार, पिन कोड—801108	पुरुष	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	14.08.1990	
22.	22	7112100126	139	श्री अमित कुमार, पिता—श्री महेन्द्र साह, ग्राम—तुर्की बरकुरबा, पोस्ट—तुर्की, थाना—कुढ़नी, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन कोड—844127	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	11.05.1991	
23.	23	7110070904	430	श्री दीपक कुमार सिंह, पिता—श्री सुनील कुमार सिंह, ग्राम—जलपुरा, पोस्ट—श्रीपालपुर, थाना—कोईलवर, जिला—भोजपुर, बिहार, पिन कोड—802314	पुरुष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.10.1997	
24.	24	7112110338	201	श्री राजेश राम, पिता—श्री भजन राम, ग्राम—बेला, पोस्ट—भुतही, थाना—सोनवर्षा, जिला—सीतामढ़ी, बिहार, पिन कोड—843317	पुरुष	अनुसूचित जाति	01.01.1994	

25.	25	7113030072	275	श्री वीरेन्द्र कुमार राय, पिता—श्री बेचन राय, ग्राम + पोस्ट—बलाईन, थाना—अरेर, जिला—मधुबनी, बिहार, पिन कोड—847222	पुरुष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.05.1989	
26.	26	7114080159	348	श्री सुशांत कुमार, पिता—श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, ग्राम—परोरा, पोस्ट—सनहा, थाना—साहेबपुर कमाल, जिला—बेगूसराय, बिहार, पिन कोड—851219	पुरुष	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02.01.1997	
27.	27	7110040268	380	श्री साहिल आनन्द, पिता—श्री श्याम बाबू गुप्ता, ग्राम—मलिकपुर, पोस्ट—मलिकपुर, थाना—कराय पसुराय, जिला—नालंदा, बिहार, पिन कोड—801304	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	02.01.1993	
28.	28	7110070353	237	विनय कुमार, पिता—श्री बालगोविन्द प्रसाद, ग्राम + पोस्ट—भतहर, थाना—थरथरी, जिला—नालंदा, बिहार, पिन कोड—801307	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	12.03.1994	
29.	29	7114070256	324	निधि कुमारी, पिता—सर्वदानन्द प्रसाद, ग्राम—रहमतपुर, पोस्ट—असरगंज, थाना—असरगंज, जिला—मुंगेर, बिहार, पिन कोड—813201	महिला	सामान्य	26.12.1997	
30.	30	7112070470	296	श्री अमर कुमार, पिता—श्री रामबाबू साह, ग्राम—पुपरी, पोस्ट—रत्नलक्ष्मी, थाना—पुपरी, वार्ड—05, जिला—सीतामढ़ी, बिहार, पिन कोड—843320	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	02.12.1992	
31.	31	7113070240	132	श्रीमान मालाकार, पिता—श्री अरविन्द मालाकार, ग्राम—मिर्चाई बाड़ी, मस्जिद रोड, पोस्ट—कटिहार कोर्ट, थाना—कटिहार सहायक, मकान नं०—0238 जिला—कटिहार, बिहार, पिन कोड—854105	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	16.02.1993	

32.	32	7111041297	431	श्री कन्हैया कुमार, पिता—श्री मनोज चन्द्रवंशी, नियर इंडियन ऑयल पम्प, ग्राम—सारेन मठ, टेहटा, पोस्ट—टेहटा, थाना—मखदुमपुर, जिला—जहानाबाद, बिहार, पिन कोड—804427	पुरुष	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	05.02.1998	
33.	33	7113040235	404	अमित कुमार, पिता—श्री ब्रह्मानन्द सिंह, ग्राम—सुपौली, पोस्ट—ब्रह्मज्ञानी, वार्ड न०—13, थाना—भवानीपुर, सुपौली, एस०टी० ब्रह्मज्ञानी जिला—पूर्णियाँ, बिहार, पिन कोड—854204	पुरुष	स्वतंत्रता सेनानी वर्ग (पिछड़ा वर्ग)	07.05.1983	
34.	34	7112020214	374	रागिनी कुमारी, पिता—श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम—रेपुरा रामपुर बल्ली (नवादा), पोस्ट—जैतपुर (स्टेट), थाना—सरैया, जिला—मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन कोड—843123	महिला	सामान्य	16.11.1980	
35.	35	7110010020	288	श्वेता कुमारी, पिता—श्री बिनोद पाण्डेय, आदर्श नगर, बाजार समिति के दक्षिण, अनाईठ, आरा, भोजपुर, थाना—नवादा (आरा), बिहार, पिन कोड—802302	महिला	सामान्य	30.08.1998	
36.	36	7110040476	107	सुश्री आरती कुमारी, पिता—श्री संतोष सिंह, ग्राम—सुन्दर, पोस्ट—दावध, थाना—दावध, जिला—रोहतास, बिहार, पिन कोड—802226	महिला	सामान्य (पिछड़ा वर्ग)	10.10.1994	
37.	37	7110070242	271	सुश्री अनु प्रिया, पिता—श्री मानिकचन्द्र पंडित, उषा सदन, तथागत कॉपरेटिव, भागवत नगर, पोस्ट—बी०एच० कॉलोनी, थाना—अगम कुँआ, जिला—पटना, बिहार, पिन कोड—800026	महिला	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	24.08.1996	

38.	38	7114040081	353	श्रीमती स्वीटी कुमारी, पिता—श्री विजय बहादुर साह, ग्राम—बाघी, वार्ड सं०—11, पोस्ट—सुहृदनगर, थाना— लोहिया नगर ओ०पी०, जिला—बेगूसराय, बिहार, पिन	महिला	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	15.06.1987	
39.	39	7111020518	243	शबीहा फातीमा, पिता—मो०, असलम, ग्राम— मंचमहला, पोस्ट—सिलौजा, थाना—बेलागंज, जिला—गया, बिहार, पिन कोड—804403	महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	08.01.1997	
40.	40	7114060107	316	सुश्री रूचि कुमारी, पिता—राम मोहन मंडल, ग्राम—इन्द्रसेना, पोस्ट—राजपुर जेठोर, थाना—अमरपुर, जिला—बांका, बिहार, पिन कोड—813101	महिला	पिछड़ा वर्ग महिला (पिछड़ा वर्ग)	08.10.1992	
41.	41	7110030047	269	सुश्री प्रियंका श्यामल, पिता—श्री नागेन्द्र प्रसाद, मकान नं०—40, हथुआ इन्क्लेभ, रामजीचक, बाटा फैक्ट्री के निकट, पेट्रोल पम्प के सामने, पोस्ट—बाटागंज, थाना—दीघा, जिला—पटना, बिहार, पिन कोड—800018	महिला	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	28.12.1991	
42.	42	7110080468	204	सुश्री रितु पर्णा, पिता—श्री सूर्य कुमार सिंह, ग्राम + पोस्ट—बरहोग, थाना—बिंद, जिला—नालंदा, बिहार, पिन कोड—803107	महिला	पिछड़ा वर्ग महिला (पिछड़ा वर्ग)	11.02.1997	

2. यह नियुक्ति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के अंतर्गत की जा रही है, इसके सभी सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

3. बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 के नियम-17 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में 2 वर्ष के लिए परीक्षा पर की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को यथाविनिश्चित मान्यता प्राप्त संस्थानों में दो वर्ष के लिए प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। परीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी यदि आलोच्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने में असफल रहते हैं तो उस अभ्यर्थी की परीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है एवं फिर भी यदि वह उक्त बढ़ाई गई अवधि में प्रशिक्षण को पूरा करने में असफल रहते हैं तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

4. प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद परीक्षा पर बितायी गई अवधि सेवा अवधि मानी जाएगी।

5. परीक्ष्यमान अवधि के पश्चात कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अहर्ताएं पूर्ण होने के उपरान्त सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या—1964 दिनांक—31.08.2005 एवं 768 पे०को० दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) लागू होगी।

7. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है, तो उनकी सेवा, बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

8. भविष्य में इनसे संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों के संबंध में गलत सूचना/फर्जी पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।

9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/स्वीकृत त्याग पत्र/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

13. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो इसे तदनुसार संशोधित किया जायेगा।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

आशुतोष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)।

सं० ग्रा०वि०-14(द०)दर०-08/2015—1431670

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

12 दिसम्बर 2022

श्री महेश चन्द्र, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले (दरभंगा), सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध लक्ष्य से अधिक आवास स्वीकृत करने, प्रतीक्षा सूची का क्रमांक तोड़ने, 19 लाभुकों को दोबारा आवास देने, इंदिरा आवास सहायक एवं प्रभु खतवे, वार्ड सदस्य के द्वारा लाभुकों से राशि की उगाही करने के आरोपों पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक- 1962 दिनांक-31.07.2015 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

श्री महेश चन्द्र से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विस्तृत जांच हेतु विभागीय संकल्प जापांक- 482073 दिनांक- 06.07.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-598620 दिनांक-11.10.2021 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्री महेश चन्द्र के विरुद्ध धारित आरोप संख्या- 1,2,3 एवं 4 पर समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आरोप संख्या-2 में वर्णित आरोप पर संचालन पदाधिकारी द्वारा किये गये साक्ष्य का विवेचन तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। श्री महेश चन्द्र द्वारा इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची का क्रम तोड़ने से संबंधित स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई ठोस व मान्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्संबंध में उनसे लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई, परंतु लिखित अभ्यावेदन अप्राप्त है।

श्री महेश चन्द्र के विरुद्ध आरोप, स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अभिमत की पुनः समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रतीक्षा सूची क्रम तोड़ने के आरोप के खंडन हेतु कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। साथ ही, इनके द्वारा 10 लाभुकों को दोबारा इंदिरा आवास का लाभ दिये जाने के मामले में राशि की वसूली आरोप गठन के बाद में की गयी प्रतीत होती है।

अतएव श्री महेश चन्द्र के द्वारा इंदिरा आवास योजना में बरती गयी उक्त अनियमितता के लिए इन्हें विभागीय अधिसूचना जापांक-945376 दिनांक-23.05.2022 द्वारा “असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने का दंड (पत्र निर्गत की तिथि से)” अधिरोपित किया गया।

उक्त शास्ति के विरुद्ध श्री महेश चन्द्र के कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक- 1002 दिनांक- 29.06.2022 द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चन्द्र के उक्त अभ्यावेदन में कोई नया साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है जिससे पूर्व के निर्गत आदेश में परिवर्तन किया जा सके।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री महेश चन्द्र द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल आदेश से,
बालामुरुगन डी0, सचिव।

सं0 सं0सं0-ग्रा0वि0 14(को0)सु0-02/2020—1432776

13 दिसम्बर 2022

श्री देवानन्द सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसंतपुर, सुपौल के विरुद्ध माह अप्रैल एवं मई-2019 में बाल विकास परियोजना कार्यालय, मरौना में Take Home Ration (THR) Hot Cooked Meal (HCM) वितरण नहीं किये जाने की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता की गई जो पदेन दायित्वों के निर्वहन में चूक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 (1)(i)(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है के आरोप पर समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-2371 दिनांक-22.06.2021 द्वारा आरोप प्राप्त हुआ।

सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया है कि माह अप्रैल 2019 में पोषाहार मद में आवंटन उपलब्ध नहीं रहने तथा माह मई 2019 में CFMS की नई व्यवस्था में CFMS पोर्टल पर विलंब से आवंटन प्राप्त होने के कारण ससमय कोषागार से निकासी नहीं की जा सकी। जिसके कारण THR का वितरण नहीं कराया जा सका।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं श्री सिंह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि CFMS पोर्टल पर विलंब से आवंटन प्राप्त होने की बात कही गयी है तथापि प्रखंड विकास पदाधिकारी को राशि की निकासी में तत्परता दिखानी चाहिए थी। अतएव श्री देवानन्द सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बसंतपुर, सुपौल सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवीनगर (औरंगाबाद) को सतर्क एवं सचेत रहते हुए कार्य करने की चेतावनी दी जाती है।

आदेश दिया जाता है कि श्री देवानन्द सिंह की चारित्रिक पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल आदेश से,
बालामुरुगन डी0, सचिव।

सं0 ग्रा0वि0-R-503/1/2022-SECTION 14-RDD-RDD(COM-150658)—1435110

13 दिसम्बर 2022

श्री रवि रंजन, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, धमदाला (पूर्णिया) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी के विरुद्ध वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में धमदाहा प्रखंड के ग्राम पंचायत रंगपुरा दक्षिण में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कुल 68 लाभार्थियों को PMAY ID में हेराफेरी कर वास्तविक लाभार्थियों के बदले दूसरे लोगों को राशि भुगतान किये जाने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक-1327 दिनांक- 01.12.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री रंजन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि धमदाहा प्रखंड अंतर्गत 26 पंचायतों में लगभग 7256 लाभार्थियों को भुगतान उनके कार्यकाल में हुआ,

जिसमें 68 अप्राप्त लाभकों के खाते में भुगतान हुआ, जो मात्र एक पंचायत से संबंधित है। अन्य आवास अपूर्णता तथा मुख्यमंत्री वास स्थल सहायता योजना अंतर्गत कुल लक्ष्य 26 के विरुद्ध उपलब्धि शून्य के संबंध में कोरोना महामारी के कारण लगी लॉकडाउन स्वरोजगार के कम अवसर का होना बताया गया।

जिला पदाधिकारी, पूर्णियां द्वारा प्राप्त आरोप पत्र एवं श्री रंजन द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षापरांत पाया गया कि श्री रवि रंजन, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णियां द्वारा सम्यक अनुश्रवण का अभाव दृष्टिगत है।

अतः सम्यक विचारोपरांत श्री रवि रंजन, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, धमदाहा (पूर्णियां) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपट्टी, मधुबनी को बिहार सेवा संहिता, 2005 के नियम 14 के तहत "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध" करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री रवि रंजन की चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल आदेश से,
बालामुरुगन डी0, सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

अधिसूचना
8 दिसम्बर 2022

सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-01/2020-13226—श्री विकास केशव, अधीक्षक, उपकारा, उदाकिशुनगंज की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या-1799 दिनांक-03.03.2020 द्वारा बिहार कारा सेवा के अंतर्गत परीक्ष्यमान काराधीक्षक के पद पर की गई थी।

2. श्री विकास केशव, अधीक्षक, उपकारा, उदाकिशुनगंज द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पुलिस उपाधीक्षक (बिहार पुलिस सेवा) के पद पर अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत उक्त पद पर योगदान देने के लिए विरमित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. विभागीय आदेश ज्ञापांक-8940 दिनांक-16.12.2020 द्वारा श्री विकास केशव, अधीक्षक, उपकारा, उदाकिशुनगंज को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

4. विभागीय आदेश ज्ञापांक-7120 दिनांक-13.08.2021 द्वारा श्री केशव को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक (बिहार पुलिस सेवा) के पद पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था।

5. गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-7912 दिनांक-06.10.2021 द्वारा श्री केशव को बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है।

6. अतः श्री विकास केशव, अधीक्षक, उपकारा, उदाकिशुनगंज से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में उन्हें बिहार कारा सेवा से बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान देने हेतु प्रभार त्याग की तिथि से विरमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव जमुआर, उप-सचिव।

जल संसाधन विभाग

आदेश

15 दिसम्बर 2022

सं0 बा०प्र०सु०स०के०-11/2022-1014--जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार के अधीन बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना के नियंत्रण में विश्व बैंक सम्पोषित बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत स्थापित

गणितीय प्रतिमान केन्द्र (Mathematical Modelling Centre-MMC) के सुचारू संचालन हेतु विभागीय संकल्प सं० 5/डी०-04-10-01/2017-1334 दिनांक-26/05/2017 द्वारा निम्न सारणी के कॉलम-4 में वर्णित पदों की स्वीकृति प्रदत्त है। तकनीकी/विशेषज्ञ संवर्ग के विभिन्न पदों पर संविदा आधारित अस्थायी नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित सूचना (विस्तृत सूचना का पत्रांक-11/2022-282 दिनांक-25/03/2022 एवं संक्षिप्त सूचना का पत्रांक-11/2022-283 दिनांक-25/03/2022) के आलोक में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के क्रम में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित चार अदद अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में अंकित पदों पर स्तंभ 5 में अंकित प्रतिमाह पारिश्रमिक दर पर एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी रूप से संविदा पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	नाम	गृह जिला	पदनाम	प्रतिमाह पारिश्रमिक	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	श्री सुबोध कुमार	पटना, बिहार	वरीय बाढ़ प्रतिरूपक	₹ 87,502/- (रुपये सत्तासी हजार पाँच सौ दो) मात्र।	श्री सुबोध कुमार सेवानिवृत्त सरकारी सेवक रहे हैं एवं इनकी निर्धारित प्रतिमाह पारिश्रमिक सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10/07/2015 के अनुरूप है।
2.	श्री सुरजीत बेरा	मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल	सुदूर संवेदी विशेषज्ञ	₹ 50,000/- (रुपये पच्चास हजार) मात्र।	
3.	श्री विकास कुमार	पटना, बिहार	तंत्र प्रबंधक (सिस्टम प्रबंधक)	₹ 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार) मात्र।	
4.	श्री शिपू कुमार सिन्हा	पटना, बिहार	आंकड़ा संचय प्रबंध विशेषज्ञ	₹ 66,666/- (रुपये छियासठ हजार छः सौ छियासठ) मात्र।	

2. संविदा के आधार पर चयन प्रथमतः 01(एक) वर्ष की अवधि या 65(पैंसठ) वर्ष की उम्र (जो भी पहले हो) तक के लिये होगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर संविदा सेवा अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

3. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं इस संविदा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में विनियमितकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

4. संविदा पर नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मियों की भांति अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।

5. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (प्रधान सचिव/सचिव) के आदेश/अनुमोदन से यात्रा पर की गयी वास्तविक व्यय अनुमान्य होगा।

6. संविदा नियुक्ति के क्रम में किये गये अनुबंध समाप्ति की तिथि के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन/सेवा विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

7. नियुक्त कर्मियों की सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना देकर उनका नियोजन रद्द किया जा सकता है।

8. उक्त नियोजन बिना कोई कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकेगी । साथ ही संविदा पर नियोजन के दौरान यदि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का गंभीर आरोप अथवा अनुशासनिक कार्रवाई की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा ।

9. संबंधित अभ्यर्थियों का नियोजन मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के साथ विहित प्रपत्र में एकरारनामा किये जाने के पश्चात् संबंधित पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।

10. संविदा के आधार पर नियोजित पद के कार्यों की समीक्षा सावधिक अंतराल पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा ।

11. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं की जाँच संबंधित संस्थान/सक्षम प्राधिकार से कराये जाने के बाद प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो संबंधित नियोजित पद की सेवा तत्क्षण समाप्त कर दी जायेगी एवं उनको भुगतान किये गये पारिश्रमिक राशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी । साथ ही अन्य सुसंगत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।

12. दो माह के अन्दर सभी अभ्यर्थी संविदा के आधार पर नियोजित पद पर बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय में योगदान करेंगे । निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं करने पर नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा तथा भविष्य में नियोजन का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा ।

13. योगदान करने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

14. संविदा के आधार पर नियोजित पद के मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने की तिथि से देय होगी ।

15. इनके पारिश्रमिक भुगतान पर होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष-2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास, उप मुख्य शीर्ष-01-बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष-001- निदेशन एवं प्रशासन उप शीर्ष-003-क्षेत्रीय स्थापना; विपत्र कोड-49-2711.01.001.0003 के अन्तर्गत 28.02 संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष के अन्तर्गत भारित होगा ।

16. सभी अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि एकरारनामा के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों के साथ इनकी एक-एक स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति भी प्रस्तुत करेंगे:-

- i. असैनिक शल्य-चिकित्सा-सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अद्यतन निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ।
- ii. योग्यता एवं अनुभव संबंधित मूल अभिलेख ।
- iii. जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र ।

आदेश से,

राम विलास दुबे, संयुक्त सचिव (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

सं० 1413—मैं राजीव कुमार, पिता—स्व. सीताराम प्रसाद चौधरी, निवासी—मोहल्ला—शिव शंकर पथ, पोस्ट—रमना, थाना—मिठनपुरा, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार शपथ पत्र संख्या 194 दिनांक—24.11.22 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य कागजातों में मेरा नाम राजीव कुमार है तथा घरेलू नाम राजीव दीक्षित (Rajiv Dikshit) है एवं अब मैं राजीव दीक्षित (Rajiv Dikshit) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊँगा।

राजीव कुमार।

No. 1414— I, **SWETA KUMARI** W/o Kumar Goutam R/o M.I.G.H.NO.-193, LohiyaNagar, Kankarbagh, Patna 800020, Bihar have changed my name to **SWETA GOUTAM** for all future purposes vide affidavit no.-17529 dated 25-11-2022 before Executive Magistrate patna sadar

Sweta Kumari.

सं० 1422—मैं सत्यपाल कुमार, पिता— स्व. गोपाल शरण सिंह, मोहल्ला—संजय गांधी नगर, रोडनं.—4, हनुमाननगर कंकड़बाग, थाना—पत्रकारनगर, पटना, बिहार शपथ पत्र सं. 387 / 26.08.2022 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि जी एस सत्यदेव कुमार मेरा पुत्र है उसके केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र में मेरा नाम Satya Pal Kumar (सत्य पाल कुमार) दर्ज हो गया है। सही नाम SatyaPal Kumar (सत्यपाल कुमार) है।

सत्यपाल कुमार।

सं० 1423—मैं शैलेन्द्र कुमार, पिता—अमरेन्द्र कुमार, निवासी—मुफ्ती मोहल्ला, पो.—हाजीपुर, थाना—नगर हाजीपुर, जिला—बैशाली, बिहार शपथ पत्र सं. 876 तिथि 21.08.2022 द्वारा घोषणा करता हूँ कि अब से मैं शैलेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाऊँगा।

शैलेन्द्र कुमार।

No. 1426— I Anil Kumar Vishwakarma, S/o Sri Suraj Prasad Vishwakarma H/No.-181/B, New Patliputra Colony, Patna-13 declare as per affidavit No. 595 dated 15.10.2022 that DivyanshuRanjan is my son and my name is written in his all educational documents of class 10th is Anil Kumar. My correct name is Anil Kumar Vishwakarma and now in future I will be known by Anil Kumar Vishwakarma for all purposes.

Anil Kumar.

No. 1427— I Phool Kumari, W/o Ram Chandra Rai, R/o Chandra Enclave, P & T Colony, Harnichak, Anisabad Patna-800002 and permanently at Manikpur, Musaharnia, PO Andauli, PS- Parihar, Sitamarhi- 843324 do hereby solemnly affirm as per aff. no. 56 dt 07.11.22 that my name mentioned in Aadhar Card (489837760419), Pan Card (AQHPK9668F) and other documents is Phool Kumari but in my Voter Card written as Phool Kumari Devi. But now I will be known as Phool Kumari.

Phool Kumari.

No. 1428— I, Pragati D/o Sri Sanchay Kumar R/o LaxmiNiwas, D.N. Das Lane, Near Vaishali Lodge, Langer Toli, Nala Road, Arya Kumar Road, P.O.-Bankipore, Patna, Bihar-800004 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 323/04.11.2022 that now I will be knowing as PRAGATI KSHIRSAGAR for all purposes.

Pragati.

No. 1429—I Manisha Kumari, W/o Sri Anil Kumar Vishwakarma H/No.-181/B, New Patliputra Colony, Patna-13 declare as per affidavit No. 594 dated 15.10.2022 that Divyanshu Ranjan is my son and my name is written in his all educational documents of class 10th is Manisha. My correct name is Manisha Kumari and now in future I will be known by Manisha Kumari in all purposes.

Manisha Kumari.

सं० 1440—मैं राजेश्वर ठाकुर, पिता स्व० राम बाबु ठाकुर, निवास—चौक शिकारपुर, जंगली प्रसाद लेन, पटना सिटी, जिला—पटना (बिहार), पिनकोड—800009 शपथ पत्र संख्या 161, दिनांक 15.12.2022 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि हर्ष कुमार मेरा पुत्र है। उसके स्कूल में मेरा नाम गलती से Rajeshvar Thakur अंकित हो गया है। मेरा सही नाम Rajeshwar Thakur है।

राजेश्वर ठाकुर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 ग्रा0वि0-14 (सा0) सा0- 05/2021—1431595
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

12 दिसम्बर 2022

श्री मनोज कुमार अग्रवाल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के विरुद्ध पंचायत आम निर्वाचन 2021 में आदर्श आचार संहिता के प्रवृत्त होने के दौरान राजनैतिक मंच साझा करने, दिनांक-15.10.2021 को ग्राम कर्णपुरा स्थित रावण वध के आयोजन स्थल के मंच पर संबोधन में मुख्य रूप से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के विरुद्ध कटाक्ष करने, दिनांक 26.10.2021 को मढ़ौरा प्रखंड में चुनाव प्रखंड में चुनाव हेतु नामांकन के दौरान प्रखंड कार्यालय के बाहर तरैया प्रखंड में पदस्थापित लिपिक श्री मंजु आलम को मामूली विवाद में सड़क पर थप्पड़ मारने व फलतः विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने, बिहार पंचायती राज अधिनियम- 2006 (यथा अद्यतन संशोधित) की सुसंगत धाराओं एवं राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी (पं0) के कर्तव्यों को सम्यक् निर्वहन नहीं कराने आदि आरोपों पर जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-51/पं0 दिनांक-10.01.2022 से विहित प्रपत्र में आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री अग्रवाल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जो स्मारोपरान्त अप्राप्त है।

श्री अग्रवाल के विरुद्ध धारित आरोपों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री अग्रवाल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं जिसकी गहन जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः श्री अग्रवाल के विरुद्ध एतदर्थ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री अरविंद मंडल, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है। जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा नामित किये गये जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय। आरोपित पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष उनके द्वारा निर्धारित सुनवाई की तिथि को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।

आदेश से,
बाला मुरुगन डी0, सचिव।

सं0 ग्रा0वि0-14(पटना) पटना- 03/2019—1432762

13 दिसम्बर 2022

श्री दिनबंधु दिवाकर, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना के विरुद्ध करनौती पंचायत में बाढ़ राहत चेक वितरण में बिना जाँच किये बगैर अपात्र व्यक्तियों (अविवाहित/अव्यस्क, पति/पत्नी)को राहत चेक का वितरण करने एवं चेक वितरण में आपदा प्रबंधन के

नियमों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 766 दिनांक 19.06.2019 द्वारा गठित आरोप पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आरोप पत्र एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-543117 दिनांक-27.08.2021 द्वारा श्री दिवाकर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत पत्रांक-820191 दिनांक-16.03.2022 के द्वारा संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा आरोप को अप्रामाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री दिवाकर के विरुद्ध धारित गंभीर प्रकृति का है एवं इसका अनुश्रवण माननीय लोकायुक्त द्वारा किया जा रहा है।

अतः सम्यक विचारोपरांत आरोप की पुनः गहन जांच का निर्णय लिया जाता है।

अतएव पुनः जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री दिनबंधु दिवाकर, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बख्तियारपुर, पटना सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जाले, दरभंगा से संबंधित अभिलेख विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री राधा किशोर झा, सूचीबद्ध संचालन पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को वापस किया जाता है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा नामित पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

श्री दिनबंधु दिवाकर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में पुनः अपना पक्ष रखते हुए जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल आदेश से,
बालामुरुगन डी0, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 40—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>